



यूपीएसएसएससी की परीक्षा में बैठे चार परीक्षार्थी व 03 साल्वर एवं परिक्षा केन्द्र के संचालक सहित 08 अभियुक्त चढ़े हत्थे

-चित्रा डिग्री कालेज गल्ला मंडी अर्वा रोड पर चल रही थी परीक्षा

-उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ सम्मिलित तकनीकी सेवा(सामान्य चयन) परीक्षा 2016 का मामला

-क्राइम ब्रांच और थाना हनुमंत बिहार पुलिस ने तीन साल्वर व चार परीक्षार्थी एवं परिक्षा केन्द्र के संचालक सहित 08 अभियुक्त दबोचे

-कालेज उप प्रबंधक की सह पर हो रहा था पूरा काम, पुलिस ने उसे भी किया गिरफ्तार

कानपुरा यूपीएसएसएससी की परीक्षा में कॉलेज प्रबंधक की सह पर परीक्षा दे रहे साल्वर गैंग के सात सदस्यों को पुलिस ने दबोच लिया। कॉलेज प्रबंधक की मिलीभगत से हो रहे इस काम में पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम एवं थाना हनुमंत बिहार पुलिस ने गैंग के सदस्यों के पास से 9 मोबाइल, प्रवेश पत्र, प्रश्न पत्र की ओएमआर शीट और ₹299500 भी बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम गैंग के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है।

घटनाक्रम के मुताबिक 26.03.2023 को थाना हनुमंत विहार के चौकी क्षेत्र गल्ला मंडी में चित्रा डिग्री कालेज गल्ला मंडी अर्वा रोड पर होने वाली **उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ** सम्मिलित तकनीकी सेवा(सामान्य चयन) परीक्षा 2016, की परीक्षा थी। पुलिस को अपने नेटवर्क से सूचना प्राप्त हुयी कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित कुछ परीक्षार्थियों का पैसा लेकर साल्वर गैंग द्वारा सहायक प्रबंधक चित्रा डिग्री कालेज कमलेश कटियार के साथ मिलकर अनुचित साधनो का प्रयोग कर नकल कराई जाएगी। जिसके क्रम में क्राइम ब्रांच टीम कानपुर नगर व थाना हनुमंत विहार की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चित्रा डिग्री कालेज से 08 अभियुक्तगण को नकल आदि सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर पर मु0अ0सं0 85/23 धारा 420/120 बी भादवि0 व 3/4ख/7/10 परीक्षा अधिनियम व दो अदद वाहन अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट पंजीकृत किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान क्रमशः 1. कमलेश कटियार (कालेज प्रबंधक) 2. विनय कुमार 3. सौरभ मिश्रा 4. अनुराग दुबे 5. सुजीत यादव 6. विजय प्रताप सिंह 7. सन्दीप कुमार 8. अमर सिंह यादव पुत्र को न्यायिक अभिरक्षा रिमांड हेतु भेजा जा रहा है।

बरामदगी मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 420/120 बी भादवि0 व 3/4ख/7/10 परीक्षा अधिनियम

· अभियुक्तगण के कब्जे से 299500/- व 09 अदद मोबाइल, 04 अदद प्रश्न पत्र मय प्रवेश पत्र व छायाप्रति ओएमआर शीट।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

- कमलेश कटियार पुत्र स्व0 राम बहादुर निवासी 341/1सी/1 डब्लू 2 बंसत विहार थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर उम्र 55 वर्ष
- विनय कुमार पुत्र अरविंद कुमार निवासी परियर सफीपुर उन्नाव हाल पता छपैडा पुलिया ब्यास हास्टल इन्द्रपुरी काकादेव उम्र 25 वर्ष
- सौरभ मिश्रा पुत्र अवधेश मिश्रा निवासी 116/238 रावतपुर गाँव थाना रावतपुर कानपुर नगर उम्र 30 वर्ष
- अनुराग दुबे पुत्र स्व0 कृष्ण बाबू दुबे निवासी ईडब्लूएस 192/876 रतनपुर कालोनी थाना पनकी कानपुर नगर उम्र करीब 30 वर्ष
- सुजीत यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव निवासी महिपाल खेडा गाँव मजरा अर्जुनगंज थाना अंशल जनपद लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष
- विजय प्रताप सिंह पुत्र रवी प्रताप सिंह निवासी 444/111/11 मुशाहब गंज थाना ठाकुरगंज चौक लखनऊ उम्र करीब 37 वर्ष
- सन्दीप कुमार पुत्र बेचेलाल वर्मा निवासी ग्राम मोहल्ला मानस नगर सण्डीला हरदोई उम्र करीब 37 वर्ष
- अमर सिंह यादव पुत्र संत लाल निवासी निवादा थाना बहिरया इलाहाबाद उम्र 35 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में- क्राइम ब्रांच से-निरीक्षक अमित कुमार भडाना क्राइम ब्रांच, उ0नि0 सुनीत शर्मा क्राइम ब्रांच, उ0नि0 मो0 आरिफ क्राइम ब्रांच, उप निरीक्षक राहुल कुमार क्राइम ब्रांच, उप निरीक्षक जनार्दन सिंह क्राइम ब्रांच, हे0का0 शंकरबक्स क्राइम ब्रांच, हे0का0 चंदन कुमार गौड क्राइम ब्रांच टीम, हे0का0 प्रदीप कुमार क्राइम ब्रांच, हे0का0 प्रदीप कुमार क्राइम ब्रांच, का0 रोहित कुमार क्राइम ब्रांच, का0 सत्यवीर अवाना क्राइम ब्रांच, का0 जितेन्द्र कुमार क्राइम ब्रांच, का0 मनोज कुमार क्राइम ब्रांच, का0 अजीत कुमार क्राइम ब्रांच, का0 बनै सिंह क्राइम ब्रांच, का0 राहुल अग्रहरि क्राइम ब्रांच शामिल रहे।

थाना हनुमन्त विहार से- थाना प्रभारी अभिलाष मिश्रा, उ0नि0 निशांत कुमार राणा, उ0नि0 अशोक कुमार, उ0नि0 प्रवीण कुमार झा, हे0का0 प्रमोद कुमार, हे0का0 रामसुमेर, का0 सुखवीर सिंह, का0 अनुराग सिंह, का0 आशीष कुमार।